

September 7, 2023

The General Manager

Dept. of Corporate Services Bombay Stock Exchange Limited Floor 25th P.J. Towers Dalal Street Mumbai - 400 001. The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir.

Sub: Copy of Public Notice advertised in Newspaper
Ref: BSE Scrip Code: 543231
NSE: Stock Code: ADL

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with regard to intimation of Notice of the 6th Annual General Meeting (AGM), E-voting Schedule, Record/Cut-off Date and Book Closure of Register of Members & Share Transfer Books for the purpose of the said AGM.

Please find attached copy of newspaper advertisement.

This is for your information and record.

Thanking you. Yours faithfully, For **Archidply Decor Limited**

(Shyam Daga) Managing Director DIN: 00568103

Encl:a/a

ARCHIDPLY DECOR LIMITED

CORPORATE OFFICE: #29/2, G. K. Manor, 1st Floor, Nehru Nagar Circle, Seshadripuram, Bangalore — 560020 (080) 43420000/23445607 (080) 23348463 □ info@archidply.com www.archidplydecor.com

REGD. OFFICE: Plot No. 7, Sector 9, Integrated Industrial Estate, SIDCUL, Pant Nagar, Rudrapur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand — 263153.

(05944) 250270 | (05944) 250269

CIN: U20231UR2017PLC008626

FINANCIAL EXPRESS

MPS PHARMAA LIMITED (Formerly Advik Laboratories Ltd.)

CIN No.: L74899HR1994PLC038300

Regd. Office & Factory: 138. Roz-Ka-Meo Industrial Area, Sohna - 122103 (Distt.Mewat), Haryan Phones: 0124-2362471 Email: info@mpspharmaa.com Website: www.mpspharmaa.com Notice of Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

lotice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held o riday, 29th September, 2023 at 09.30 A.M. at the Registered Office of the Company, at 138, Roz Ka-Meo, Industrial Area, Sohna, Distt. Mewat - 122103 (Haryana) to transact the business set out in otice dated 29th August, 2023 of the AGM. The Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2022 2023 has been sent to all the members through permitted mode on 05th September, 2023. Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there unde

it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company w emain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 for th n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has provided electron voting facility for transacting all the business items as mentioned in the AGM notice dated 29th Augus 1023 through the Remote e-voting facility on the platform of National Securities Depository Limite (NSDL). Remote E-voting will commence on 26th September, 2023 at 09:00 A.M. and end on 28th September, 2023 at 5.00 P.M. No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time The notice of the Annual General Meeting along with Remote e-voting instructions has also bee displayed on the website of the Company www.mospharmaa.com and on the website of the Agency www.evoting.nsdl.com. The Members of Company holding shares as on Friday, 22nd September 2023 may cast their votes Electronically through Remote E-voting platform of NSDL a www.evoting.nsdl.com or vote at the General Meeting through the Ballot Form. Members may participate n the General Meeting even after Remote E-voting but shall not be eligible to vote at the meetin Voting, if exercised will be invalid and the vote caste through Remote E-voting will be considere Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case members have any queries or issues regarding Remote e-voting, they may refer th requently Asked Questions (FAQ) and Remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com inder help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in Shareholders may contact Registrar & Share Transfer Agent (RTA), M/s MAS Services Limited, contact no. 011-26387281-83 or their respectiv Depositories for registration/updation of their email IDs and other matters

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2023 may obtain the user id and password by sending the request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person i already registered with NSDL for remote evoting then existing user id and password can be used for casting vole

Members holding shares in physical form are requested to get their shares Dematerlised pursuant to SEBI Circular No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated 08th June. 2018. Member who hold shares in physical mode and have not registered / updated their email addresses PAN/KYC details with the Company, are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company MAS Services Limited ("RTA"). Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March, 16, 2023, the Company has sent letters to the shareholders holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. Further the shareholders can also access the relevant Forms on Company's website at www.mpspharmaa.com. Members holding shares in demat form are requested to update their email address with their respective DPs. For MPS PHARMAA LIMITED

> (Formerly Advik Laboratories Limited) Pooja Chuni Company Secretary

Place: Sohna, Haryana Date: 06th September, 2023



CIN: L23209PN1990PLC054829 Reg. Add: 404 Naman Centre, C-31/ G Block, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Tel: 91-22-40424100 Email Id: info@kesarpetroproducts.com

URL: www.kesarpetroproducts.com NOTICE OF 33" ANNUAL GENRAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOUSURE

NOTICE is also hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the

NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer books of the Company would remain closed from Wednesday, the 20th September, 2023 to Tuesday, the 26th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of holding the Annual General Meeting.

Shareholders of the Company would be held on Tuesday, 26th September, 2023 at 1.00 p.m. through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 28th September 2020, 31st December 2020 and 13th January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated 12th May 2020 and 15th January 2021 ('SEBI Circulars'). The aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars has exempted Companies from sending Annual Reports in Physical mode. Accordingly, electronic copy of Annual Report contains, inter alia, the notice of the said AGM specifying the items of Ordinary & Special business and the audited accounts of the Company for the year ended 31st March 2023 together with the Reports of the Auditors and the Directors thereon, is being mailed to all the shareholders whose names appear on the Register of Members and to the Beneficial Holders of Shares as per the details provided by the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited. The Annual report is also available on the Company's website https://www.kesarpetroproducts.com/investors-information.html website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited https://www.bseindia.com/ and the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. https://www.evoting.nsdl.com/.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its Shareholders with facility to exercise their right to vote for the businesses to be transacted at the 33rd AGM by electronic means through E-Voting Services provided by National Depository Services Limited (NSDL).

The E-voting period shall commence from Saturday, the 23.09.2023 (9.00 a.m.) and ends on Monday, the 25.09.2023. The voting by electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 25.09.2023. During the e-voting period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e 19.09.2023 will be eligible to cast their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.

> BY ORDER OF THE BOARD For KESAR PETROPRODUCTS LIMITED

Place: Mumbai Date: 05.09.2023 DIRECTOR

● NATCO Pharma Limited Regd. Office: NATCO HOUSE, Road No.2, Baniara Hills, Hyderabad-500 034, Phone: 040-23547532,

Email: investors@natcopharma.co.in, CIN: L24230TG1981PLC003201, www.natcopharma.co.in

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE AND OTHER INFORMATION Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the

Company will be held on Friday, the 29th day of September, 2023 at 10.30 a.m. Indian Standard Time (IST) through Video Conference (VC) or Other Audio Video Means (OAVM) pursuant to and in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations") read with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") issued General Circular Nos 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022, respectively, ("MCA Circulars") allowing, inter-alia conducting of AGM through VC / OAVM facility, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the MCA General Circular No. 20/2020. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020; Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022; and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ("SEBI Circulars" has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI Listing Regulations (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set forth in the notice of AGM dated 9th August, 2023.

The Annual Report of the company for the financial year 2022-23 along with the notice of AGM and other reports / documents were sent to the members on 4th September, 2023 through electronic mode only to all the members whose e-mail addresses are registered with the RTA or Company or made available by the Depositories as on 1st September, 2023. The AGM documents are available on the Company's website **www.natcopharma.co.in** and also on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com respectively. Members are requested to note that physical / hard copies of the AGM documents will not be sent by the Company.

Only members who hold shares either in physical mode or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., 22nd September, 2023 shall be entitled to cast their votes on all the resolutions set forth in the notice of the AGM using remote e-voting and through electronic system (e-voting) during the AGM. Provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Instructions for remote e-voting during the AGM

The members are further informed that:

 The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by remote e-voting or e-voting system during the AGM.

. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, 26th September, 2023 at 9.00 A.M (IST) and ends on Thursday, 28th September, 2023 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting

shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member he/she/it shall not be allowed to change it subsequently The cut-off date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting or at

the AGM is 22nd September, 2023. Any person who become a member of the Company after sending the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@natcopharma.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. Members holding shares as on cut-off date and who have not already cast their vote by

remote e-voting shall be able to exercise their right to vote through electronic voting system provided during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote

The instructions for remote e-voting, e-voting during the AGM, participation in the AGM

through VC/OAVM and manner in which the user id and passwords can be obtained by members whose email address are not registered with Company/ Depository to enable them to cast their vote and register their email address are provided in the Notice of AGM. The notice of AGM is available on Company's website www.natcopharma.co.in and also on the website of the stock exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and ww.nseindia.com respectively and the website of NSDL viz In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager, Mail Id amitv@nsdl.co.in and Mrs. Pallavi Mhatre, Manager, Mail Id: pallavid@nsdl.co.in.

. The Company appointed CS Kiran Kumar Bodla (CP No. 15876) Proprietor, M/s. B K & Associates Practicing Company Secretaries, Hyderabad as scrutinizer for the remote e-voting process and e-voting at the venue of the AGM in a fair transparent manner. Members for joining the AGM through VC or OAMS:

Members holding shares as on cut-off date will be able to attend the AGM through VC/OAVN or view the live webcast of AGM provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVEN for Company's AGM. The detailed instructions to members for joining the AGM through VC/OAVM is set out in the notice of AGM. Manner of receiving AGM documents or user Id and password for members whose email

address are not registered with the Company / Depository are as follows: Members who have not registered their email address are requested to send a request

to the Registrars and Share Transfer Agents of the Company M/s. Venture Capital and Corporate Investments Pvt Ltd or the Company at investor.relations@vccipl.com or investors@natcopharma.co.in respectively by providing their details to obtain the Notice of AGM. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 26th September, 2023 to Friday, 29th September, 2023 (both days Inclusive) for the purpose of AGM. for Natco Pharma Limited

Place: Hyderabad

Ch. Venkat Ramesh **Company Secretary & Compliance Officer**

Regd. Office: Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara (Gujarat): 390007 GETCO: www.getcogujarat.com

C&R Panel (4) 11kV Poly. A. B. Switch [B] Civil: CE(P&C)/Contracts/Civil/218/23-24/66 kV Ambheti S/S.: Construction of Control Room Building, Foundations, Cable Trench, C'Wall, RCC Road & Misc.

EPC of (1) 400/220/66kV Equipment & material on Turnkey basis including all civil works at 400KV Prantij GIS S/S (2) 132kV D/C Karamsad Gothaj TSS Line with ACSR Panther Conductor & 24F OPGW Cable - AP(44) to Gothai WR TSS gantry. 10.66 Rkm under deposit scheme for LTOA. (Package - 3) (3) 66kV 1C, 630mm2 XLPE Cable with Poly. Al. construction on EPC basis for 66kV D/C (6+1) Line from 220kV Wagra S/S to Bharuch DSS having Approx. UGC Route Length of 10.6 KM for M/s NHSRCL (4) 220kV D/C Prantij Agiyol - 17.49 km with AL-59 (61/3.50) conductor with 24F & 48F OPGW cable on turnkey basis (5) LILO of 220kV S/C Chikhli Atul Vapi line at 400kV Vapi-II (ISTS) substation on D/C towers with AL-59 (61/3.50) conductor & OPGW cable on turnkey basis (6) LILO of both circuits of 400kV D/C Mundra Zerda line at 400kV Shivlakha Substation - 12.491 Rkm with Twin AL-59 (61/3.50)

Above Tender are available on web-site www.getcogujarat.com (for view and download only) & https://getco.nprocure.com (For view, download and on line tender submission).

Chief Engineer (Procurement &Contracts) Dated 04/09/2023

CIN: I 70109TG1995PI C019116

Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 1-8-271 to 273, 3rd Floor, Ashoka Bhoopal Chambers, S. P. Road, Hyderabad - 500 003 (Telangana)

Corp. Office: TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram -122 001, Haryana Tel: +91 124 2381603-06

Sub: Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given to those shareholders who have not claimed/encashed their dividend since the year 2016-17 & the same has remained unclaimed and unpaid for a period of seven consecutive years.

Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time (IEPF Rules), the Equity Shares in respect of which dividends have remained unclaimed and unpaid by the shareholders for the past seven consecutive years, are mandated to be transferred by the Company to the demat Account of the IEPF Authority established by the Central Government. Accordingly, the shares of all shareholders who have not claimed their dividend since FY 2016-17 (Interim) are liable to be transferred to IEPF.

In this regard, individual notices and reminders is being sent to all the concerned

shareholders at their latest addresses available with the company and the details of such shareholders is being displayed on the website of the Company (www.tcil.com). All concerned shareholders are hereby again requested to claim their shares and unclaimed dividend amount(s) on or before 20th November, 2023 by making an application to the Company. Any claim made after the abovementioned date shall not be considered valid and will not be taken on record.

individual amount, shares and other benefits accruing thereon, so transferred to the IEPF. The shareholders can however, claim their unclaimed dividend & shares already transferred to IEPF by following the procedure stipulated in the IEPF Rules. For further information/clarification on the subject matter, you may contact the undersigned by sending an e-mail at secretarial@tcil.com or reach our Registrar &

Transfer Agent(s), M/s KFin Technologies Limited at Tower-B, Plot 31-32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad 500032. Tel: +91 40 67162222; Email Id: einward. ris@kfintech.com. For Transport Corporation of India Limited

Archana Pandev Place: Gurugram Date: 05th September, 2023 **Company Secretary & Compliance Officer**

> IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL **COURT IV, MUMBAI BENCH** C.P. (CAA)/182/MB-IV/2023

C.A. (CAA)/186/MB-IV/2022 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

Act, 2013

In the matter of Scheme of Amalgamation of APAC Housing Finance Private Limited with APAC Financial Services Private Limited And their respective Shareholders and Creditors.

M/s. APAC Financial Services Private Limited

... Petitioner/Transferee Company

NOTICE OF HEARING OF SCHEME PETITION

The Company Scheme Petition filed by the Transferee under Section 230 to 232 of the

Companies Act. 2013 for Scheme of Amalgamation of APAC Housing Finance Private Limited with APAC Financial Services Private Limited And their respective Shareholders and Creditors was presented by the Petitioner/ Transferee before the Hon'ble Tribunal NCLT, Mumbai and the same was admitted on 16th August, 2023. The said Petition is fixed for hearing and final disposal the Hon'ble Tribunal NCLT, Mumbai on 3rd October, 2023.

Any person in support of or opposing the Petition should send the Petitioner Company a notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/her name and address to the Petitioner Company, at Office No.501, 5th Floor, South Annex, Tower 2, Senapati Bapat Marg, One World Centre, Lower Parel (West), Mumbai – 400013 and also to the National Company Law Tribunal, Mumbai at 4th Floor Cuffe Parade Tel Exchange, G.D. Somani Road, Cuffe Parade Mumbai. Where he/she seeks to oppose the Petition along with grounds of opposition and with a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

Kindly note that as per the direction of NCLT, "if no response is received from your office, it will be presumed that you have no objection to the proposed Scheme as per Rule 8 of the Companies (Compromise, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016".

> **Authorized Signatory** M/s. APAC Financial Services Private Limited



SHREYAS INTERMEDIATES LTD.

Reg. Add: 404 Naman Centre, C-31/ G Block, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Tel: 91-22-6422 2626 Email: info.shreyasintermediates@gmail.com

URL: www.shreyasintermediates.co.in NOTICE OF 34TH ANNUAL GENRAL MEETING,

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOUSURE NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the

Register of Members and the Share Transfer books of the Company would remain closed from Wednesday, the 20th September, 2023 to Tuesday, the 26th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of holding the Annual General Meeting. NOTICE is also hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the

a.m. through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 28th September 2020, 31st December 2020 and 13th January 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 12th May 2020 and 15th January 2021 ('SEBI Circulars'). The aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars has exempted Companies from sending Annual Reports in Physical mode. Accordingly, electronic copy of Annual Report contains, inter alia, the notice of the said AGM specifying the items of Ordinary & Special business and the audited accounts of the Company for the year ended 31st March 2023 together with the Reports of the Auditors and the Directors thereon, is being mailed to all the shareholders whose names appear on the Register of Members and to the Beneficial Holders of Shares as per the details provided by the National Securities Depository Limited and the Central Depository Services (India) Limited. The Annual report is also available on the Company's website http://www.shreyasintermediates.co.in/services.html website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited https://www.bseindia.com/ and the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. https://www.evoting.nsdl.com/.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its Shareholders with facility to exercise their right to vote for the businesses to be transacted at the 33rd AGM by electronic means through E-Voting Services provided by National Depository Services Limited (NSDL) The E-voting period shall commence from Saturday, the 23.09.2023 (9.00 a.m.) and ends

on Monday, the 25.09.2023. The voting by electronic means shall not be allowed beyond cannot be changed subsequently.

For SHREYAS INTERMEDIATES LIMITED

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No: Re-192/2023-24/SE/PHC/MVPA

Construction of 3 MLD plant at Kanthalloor- General Civil Work. EMD: Rs. 1,00,000/-, Tender fee: Rs. 8270, Last Date for submitting **Tender**: 18-09-2023 04:00:pm. **Phone**: 04852835637. **Website** www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in **Superintending Engineer**

PH Circle KWA-JB-GL-6-1149-2023-24 Muvattupuzha

... Petitioner/Transferor Company

Sd/-

Abhishek

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL **COURT IV, MUMBAI BENCH**

C.P. (CAA)/221/MB-IV/2023 C.A. (CAA)/182/MB-IV/2022

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

In the matter of sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies

Act, 2013

In the matter of Scheme of Amalgamation of APAC Housing Finance Private Limited with APAC Financial Services Private Limited And their respective Shareholders and

M/s. APAC Housing Finance Private Limited,

NOTICE OF HEARING OF SCHEME PETITION

The Company Scheme Petition filed by the Transferor under Section 230 to 232 of the

Companies Act, 2013 for Scheme of Amalgamation of APAC Housing Finance Private Limited with APAC Financial Services Private Limited And their respective Shareholders and Creditors was presented by the Petition/Transferor before the Hon'ble Tribunal NCLT, Mumbai and the same was admitted on 16th August, 2023. The said Petition is fixed for hearing and final disposal the Hon'ble Tribunal NCLT, Mumbai on 3rd October, 2023.

Any person in support of or opposing the Petition should send the Petitioner Company

a notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/her name and address to the Petitioner Company, at Office No.501, 5th Floor, South Annex, Tower 2, Senapati Bapat Marg, One World Centre, Lower Parel (West), Mumbai – 400013 and also to the National Company Law Tribunal, Mumbai at 4th Floor Cuffe Parade Tel Exchange, G.D. Somani Road, Cuffe Parade Mumbai. Where he/she seeks to oppose the Petition along with grounds of opposition and with a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

Kindly note that as per the direction of NCLT, "if no response is received from your office, it will be presumed that you have no objection to the proposed Scheme as per Rule 8 of the Companies (Compromise, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016".

Authorized Signatory M/s. APAC Housing Finance Private Limited Dated:

DUDIGITAL GLOBAL LIMITED **DU Digital** Formerly known as DU Digital Technologies Limited

Global CIN: L74110DL2007PLC171939 Read, Office: C-4. SDA Community Centre, Hauz Khas, New Delhi, Delhi- 110016

Contact No: 011-40450533, Website: Dudigitalglobal.com, Mail: cs@Dudigitalglobal.com Notice of Annual General Meeting, E-voting Information and book Closure NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conferencing (VC) and other audio- visual means (OAVM) to transact the businesses as set

out in the Notice of AGM in Compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013, MCA circular No.10/2022 dated 28.12.2022, No. 14/2020 dated 08.04.2020. No. 17/2020 dated 13.04.2020. No. 20/2020 dated 5.5.2020 and no.20/2021 dated 08/ 12/2021. SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12.5.2020, and SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15/01/2021 to transact the business set out in the Notice of convening AGM. In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of AGM have been sent on 05th September 2023 to all the members, as on 01st September, 2023, whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s). The Notice of AGM will also be available on the website of the Company at

www.https://dudigitalglobal.com/annual-returns/, and on website on the Bigshare Services

Private Limited at https://ivote.bigshareonline.com and on the website(s) of the stock exchanges

 NSE Limited at www.NSEINDIA.com, where the Company's shares is listed. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and selfattested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving AGM Notice by email to cs@dudigitalglobal.com. Members holding shares in demat form can update their

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date i.e. 22nd September, 2023, may cast their vote electronically on the Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of CDSL. All the members The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders

email address with their Depository Participants.

can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through video conference (VC) / other audio- visual means (OAVM) The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted

through voting by electronic means;

The remote e-voting shall commence on 26th September, 2023 at 09:00 A.M. (IST); . The remote e-voting shall end on 28th September, 2023 at 05:00 P.M. (IST);

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 22nd September, 2023 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only; The Register of member and share transfer book shall remain close from 23nd September

2023 to 29th September 2023 (both days inclusive).

Member, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares as on cutoff date may obtain their login ID and password by Sending request to Bigshare Services Private Limited at ivote@bigshareonline.Com or company at cs@dudigitalglobal.com. If a member already registered with Bigshare Services Private Limited for E-voting then he can use his existing

n case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and e-voting furing the AGM, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting Manual available at Bigshare Services Private Limited Website at www.evotingindia.com under help section or writ an e-mail at https://ivote.bigshareonline.com who shall address the grievances connected with facility through e-voting by electronic means or contact Bigshare Services Private Limited 022-6263 8200 or toll free at 1800225533. For Dudigital Global Limited

Date: September 5, 2023 Place: New Delhi (Company Secretary & Compliance officer)

ARCHIDPLY DECOR LIMITED (CIN: L20231UR2017PLC008626)

Regd. Office: Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, SIDCUL, Pant Nagar, Udham Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand, 263153, Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269 Cor. Office: Ground Floor - Elixir, Chancery Pavilion, 135 Residency Road, Bangalore - 560025 Phone: 080-43714281, Website: www.archidplydecor.com, Email: bangalore@archidply.com

Notice of AGM, E-voting and Book Closure

Notice is hereby given that the Sixth (6th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of

Archidply Decor Limited will be held on Saturday, September 30, 2023 @ 12:30 P.M. at its registered office at Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, SIDCUL, Pant Nagar, Udham Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand, 263153 to transact the business as specified in

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the register of members and share transfer books of the company shall remain closed from Sunday. 24th of September, 2023 to Saturday, 30th of September, 2023 (both days inclusive) for the ourpose of aforesaid AGM.

Notice of the 6th AGM along with the Annual Report 2022-23 was sent by electronic mode to those nembers whose email addresses are registered with the company/depositories and physical copies are Dispatched to the members whose email addresses are not available with the company/depositories.

n terms of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Manage and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended from time to time, the company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM.

Further, the facility for voting through Poll/Ballot Paper shall be made available at the AGM and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the Meeting through Poll/ Ballot Paper. The facility for voting by electronic voting system shall not be made available at the AGM of the Company.

Mr. Rajneesh Sharma, Proprietor of M/s Rajneesh Sharma and Co, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process and the evoting at AGM in fair and transparent manner. All the members are hereby informed that: The Ordinary and special business as set out in the Notice of 6th AGM of the company may

be transected through voting by electronic means and through poll/Ballot paper at AGM: The remote e-voting period commences on 27th September, 2023 (10:00 A.M.) and ends on 29th September, 2023 (05:00 P.M.) Cut-off date is 23rd September, 2023

Persons who acquire and becomes shareholder of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 can do remote e-voting by obtaining the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 by mentioning their Folio No./DP ID no. However, if such shareholder is already registered with the [RTA/DP] for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. The members may note that:

The facility for voting through e-voting shall not be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM through Poll/Ballot at the AGM.

Remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2023 (05:00 p.m. IST)

Amember may participate at the AGM even after exercising his right to vote through

Aperson whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The notice of 6th AGM of the Company is available on the Company's website

(www.archidplydecor.com) and CDSL's website (www.evotingindia.com); and

In case of any queries before or during the AGM, you may refer to the Frequently Asked Questions

remote e-voting but shall not be allowed to vote again

(FAQs) for Members and e-voting user manual available at the www.evotingindia.com. under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). viii. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of the Annual General Meeting.

> For Archidply Decor Limited Siva Kiran Mavoori

KERALA STATE DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD.

Name of Tender SUPPLY AND ERECTION OF CLEAN ROOM PANEL WORK IN BLISTERING AREA OF NON-BETALACTUM PLANT [Tender ID: 2023_ksdp_598753_1]

etc will be published in the website only. Managing Director

TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED - Thiruvananthapuram-695021 E-mail: purchasettp@gmail.com, contract@ttpltd.in

E-TENDER NOTICE E-tenders are invited from Experienced Contractors / Firms in TWO BID system for the following work in T.T.P.L. Tenders can be submitted only by online through the portal

Testing, Painting and Commissioning of a new 1600 Ton capacity Acid Storage Tank of size 10.5 m dia and 10.5 m height at TTPL site as per Drg No. TTP/EP-354/1 and Drg No TTP/EP-796/2. Tender ID: 2023 TTPL 599119 1

Registered Office: Plot No. 1A Revenue Survey No. 203, Savarkundla Road, Taveda, Mahuva, Bhavnagar, Gujarat- 364290 website: www.mehtahousing.com ; email: mehtahousingfinanceltd@gmail.com

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

2023, at 12:00 noon at 1st floor, Industrial Plot No. 43, Station Road Mahuva, Gujarat - 364290.

(Listing Regulations), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023, to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Notice of 29th AGM and the Annual Reports for 2022-23 of the Company have been sent through

Agent (RTA), 29th AGM Notice and the Annual Report 2022-23 of the company are also made available on the website of the Company at www.mehtahousing.com, Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, and in the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com for reference of Members of the Company. . In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including statutory modification(s) and/or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions and the business may be transacted through remote e -voting service provided by NSDL. Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"), on the business as set out in the Notice of 29th AGM. All members may please note the following: Cut-off date September 22, 2023 (Friday)

The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and no remote e-voting shall be allowed thereafter. The facility for voting, through ballot/polling paper shall also be made available at the venue of the 29th AGM. The Members attending the Meeting, who have not cast their vote through remote

Commencement of Remote e-voting | September 25, 2023, at 09.00 a.m. (Monday)

September 28, 2023, at 05:00 p.m. (Thursday)

End of Remote e-voting

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has appointed M/s Pinky Shethia and Associates., Practicing Company Secretary, as a scrutinizer for conducting the e-voting and polling process at the 29th AGM in a fair and transparent manner.

password can be used for casting vote. To support the 'Green Initiative' Members who have not registered their email addresses are requested to register the same with the Company's RTA or physical required documents at / their

Depository Participants, in respect of shares held in physical/electronic mode, respectively. RTA: M/s. Purva Sharegistry (India) Private Limited

29th AGM or may refer to the frequently asked question (FAQ) and e-voting user manual for members at the help section of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll-free no.: 1800 1020 990 /1800 224 430 or Mr. Hardikkumar Thakkar, NSDL at hardikkumart@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in.

For Mehta Housing Finance Limited

Kinjal Kothari Date: 05.09.2023 Company Secretary Place: Mumbai

CIN: L74999CH1993PLC013306 Regd. Office: SCO: 1086-87, Sector-22B, Chandigarh. E-Mail: funcitysurya@yahoo.com, Phone No: 0172-2709539.

NOTICE

Physical copies of the Notice of the Meeting including the Attendance Slip and the Proxy Form setting out the ordinary and special businesses to be transacted at the Meeting together with the Audited Financial Statements and Consolidated Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2023, Auditor's Report and Director's Report thereon has been sent to the members who have not registered their email id with the Company / Companies Registrar & Transfer Agents to their respective

documents are available at the Company's website (www.chalofuncity.com) and the copies of the said documents are also available for Inspection at the Registered Office

attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the Commencement of the Meeting.

Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility. The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and

password along with a copy of the Notice convening the Meeting, Attendance Slip and Proxy Form have been dispatched/ emailed, as the case may be, to all the Members. This communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at www.chalofuncity.com and on the website of NSDL at www.nsdl.co.in. This remote e-voting facility shall commence on September 26, 2023 from 9:00 a.m. and ends on September 28, 2023 at 5:00 p.m. The remote e-voting will not be allowed

A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on the Record Date/ Cut-off date i.e. September 22, 2023 only shall be entitled to avail the

Meeting and holding shares as of the Record date / Cut-off date i.e. September 22, 2023, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.in. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on the Company's website and NSDL'S website. If the member is already registered with the NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the Members/ Beneficial owners may contact at the following contact details of NSDL

Date: August 30, 2023

New Delhi

(A Government of Kerala Undertaking) Kalaveor - PO, Alappuzha, Kerala-688522. Tel: -0477 2258184. website: www.ksdp.co.in, e-mail-projects@ksdp.in

-tender is invited for the following work.

for more details, please visit the website www.etenders.kerala.gov.in Details/

www.etenders.kerala.gov.in Corrigendum/ Modifications/ Retenders

www.travancoretitanium.com

MEHTA HOUSING FINANCE LIMITED

The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 29, to transact the ordinary and special businesses as set out in the Notice of 29th AGM.

electronic mode on September 4, 2023, to those members whose email addresses have been registered with their Depository Participants or with the Company or Registrar and Share Transfer

e-voting shall be exercise their voting rights at the Meeting. The Members have already cast their vote by remote e-voting may attend and participate in the AGM but shall not be entitled to vote In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and

22, 2023 may obtain the user ID and Password by sending request at evoting@nsdl.co.in However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing user ID and

Contact No.:02223018261 Email: support@purvashare.com For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer Notes to Notice of the

Website: www.funcitysurya.com

registered addresses by post and electronically to those members who have registered their email addresses.

of the Company on all working days, during the business hours upto the date of the A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the

remote e-voting, may vote at the Meeting through physical ballot for all businesses specified in the Notice. Ballot papers will be provided to the members at the venue of the Meeting to cast their votes.

By order of the Board of Directors

Kamaljeet Singh Managing Director

Place: Mumbai

Date: 05.09.2023

GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LTD. 🗝 Dept- https://www.nprocure.com

Tender Notice No. CE (P&C): TN - 12: 23-24 [A] Procurement: (1) Hybrid GIS (2) EHV Class 150 MVA Transformer (3) 66 kV

civil works at 66 kV Ambheti s/s under Navsari TR Circle [C] EPC: CE(P&C)/Contracts/E-118, E-132, E-134, E135, E-136, E-137 & E-138

conductor and OPGW cable on turnkey basis (7) 400kV D/C Sanand (Chharodi) Soja line (by using LILO portion of 400kV Halvad - Vadavi LILO at Sanand) with Twin AL-59 (61/3.50) conductor and OPGW cable on Turnkey basis.

Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the Tender.

Transport Corporation of India Ltd.

E-mail: secretarial@tcil.com, Website: www.tcil.com (FOR ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY)

In terms of the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with IEPF

Please also note that no claim shall lie against the Company or its RTA in respect of

In the matter of sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies

CIN: L24120PN1989PLC145047

Shareholders of the Company would be held on Tuesday, 26th September, 2023 at 11.00

5.00 p.m. on 25.09.2023. During the e-voting period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e 19.09.2023 will be eligible to cast their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it BY ORDER OF THE BOARD

Date: 05.09.2023

Place: Bangalore

Company Secretary

Name of Work: Supply, Fabrication, Installation,

Due Date: 15.09.2023 or more details & tenders please visit our web site (Sd/-) Head of Department (Commercial)

CIN-L15100GJ1993PLC020699

NOTICE OF 29™ ANNUAL GENERAL MEETING.

NOTICE is hereby given that:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Any person who acquires shares of the Company and becomes members of the company after

the dispatch of Notice of the 29th AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. September

Add:9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.B. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 011.

SURYA FUN CITY LIMITED

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 11:00 a.m. at SCO 1086-87, Sector 22B, Chandigarh - 160022

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid

Members are hereby informed that in Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 11:00 a.m. at SCO 1086-87, Sector 22B, Chandigarh - 160022 through remote e-voting apart from the usual mode of voting at the Meeting. The Company has engaged the services of National

beyond the said date and time. facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting.

The members who have cast their vote through remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Any member, who is entitled to vote but has not exercised his/her right to vote by

Place: Chandigarh

financialexp.epapr.in

लॉडर्स क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

सीआईएन : एल24117आरजे1979पीएलसी002099 पंजी. कार्यालय : एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) कार्पोरेट कार्यालय : ए-281, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 फोन : 011-40239034 / 35, वेबसाइट : www.lordschloro.com,

ई—मेल : secretarial@lordschloro.com 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही बंदी की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-460. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन हेत् सूचना दिनांकित 09 अगस्त, 2023 में सूचीबद्ध व्यवसाय निप्पादित किया जाएगा। एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में, एजीएम के आयोजन की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट समी सदस्यों को दिनांक 04 सितम्बर, 2023 तक मेजी जा चुकी है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति

पर्ची तथा परोक्षी प्रपत्र सहित उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी गई हैं, जिनकी ई-मेर आईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(स) के पास पहले से दर्ज हैं। सदस्यों को 44 वीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कलर्स तथा सेबी सर्कलर द्वारा

भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य, जिन्होंने अपना ई—मेल पता कम्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया तथा जो ४४वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2022—23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई—वोटिंग विवरण प्राप्त करने वे इच्छुक हैं हमको secretarial@lordschloro.com पर लिख सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे हमें हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, फोलियो नंबर, पूर्ण पता और पंजीकरण हेतु ई-मेल पता का उल्लेख करते हुए, पैर कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज की स्व–सत्यापित प्रति के साथ भेज सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई-मेल पता पंजीबद्ध करने हेतु अनुरोध पत्र केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट(पार्टिसिपॅट्स) को भेजने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lordschloro.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक प्रत्येक कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 और सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाए) विनियमावली, 2015, समय समय प संशोधित, के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अपन वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों से डालने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है तथा व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग सर्विसेज के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा एजीएम के स्थान से अलग किसी स्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के तहत अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है : क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया ज

ख) ई-वोटिंग आरंग होने की तिथि एवं समय : सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 पूर्वा. 9.00 बजे ।

ग) ई-वोटिंग समाप्ति की तिथि एवं समय : बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 अप. 5.00 बजे ।

घ) ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की ग्राह्मता निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2023 है। कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित कर कम्पनी का सदस्य

बनता है तथा विच्छेदन तिथि अर्थात बृहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को शेयरधारक है, वह यदि भौतिक रूप में शेयरधारक है तं

evoting@nsdl.co.in या Secretarial@lordschloro.com पर अनुरोध मेजकर, अपनी क्रम संख्या प्राप्त क सकता है और यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना के "इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग" के रूप में एजीएम की सूचना का नोट नंबर 15 देखें। अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार विवरण ब्धवार, 27 सितम्बर, 2023 अप. 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग व

2) एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे जिन

सकते हैं, परंतु उन्हें पुन: वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। केवल वहीं व्यक्ति, रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात बृहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लागार्थी रवामियों अथवा सदस्यों की पंजिका में सूचीबद्ध होगा।

छ) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.lordschloro.com एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए, सदस्यगण एजीएम की सुचना में दिए गए अनुदेश देखें और यदि आपको ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूज") तथा ई-वोटिंग

i) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग हेत् सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोक्षर परेल, मुंबई-400013 के संबोधित करें अथवा evoting@nsdl.co.in को ई-मेल करें अथवा 1800 102 0990 / 1800 224 430 प

तदद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अधीन यह भी सचना दी जाती है कि सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 से बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सहित) तक, एजीएम के प्रयोजन हेत् बंद रहेंगी। वास्ते लॉब्स् क्लोरो ऐल्कली लिमिटेड

हस्ता. / -अजय विरमानी प्रबंध निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएनः 00758726

तिथि : 5 सितम्बर, 2023

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड र्नः L74899DL1984PLC019218 एजीएसटीआईएनः 07AAACI0149R1ZB राजि. कार्यालयः एमजीएफ हाउस, 4/17—बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली –110002, फोन: 011-41520070, फैक्स नंबर: 41503479

वेबसाइट: www.indialease.com, ई-मेल: info@indialease.com 38वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुघवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर **12.30 बजे** , पंजीकृत कार्यालय यानी एमजीएफ हाउस, 4/17—बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना 38वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिए आयोजित होने वाली है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों नवीनतम 28 दिसंबर, 2022 को और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2023 को जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट 4 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों के लिए नोटिस भेजने का काम पुरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत हैं और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.indialease.com पर "वार्षिक रिपोर्ट" स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (https://www. indialease.com/AnnualReports22-23New.html), जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैंयानी बीएसई लिमिटेड www.bscindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की

नियक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्टॉनिक प्रारूप के माध्यम से मतदानः

कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कार्यवाही के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्टॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियक्त किया है, तदनुसार,सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सीडीएसएल द्वारा प्रदान किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग स्विधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

 रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 24 सितंबर, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद. सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबा. रा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

 जिन सदस्यों के नाम "कट—ऑफ डेट" यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रिजस्टर में दिखाई देते हैं, वे एजीएम में केवल रिमोट ई-मतदान या मतदान जैसा भी मामला हो ,की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत कर लें।

इसके अलावा .कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 38वीं एजीएम के नोटिस के नोट्स के साथ-साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग के संबंध में प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, को ईमेल के माध्यम से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संबोधित किया जा सकता है या 1800225533 पर कॉल किया जा सकता है। बोर्ड के आज्ञानुसार

कृते इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड हस्ता /-रोहित मदान

स्थानः नई दिल्ली प्रबंधक, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और सीएफओ दिनांकः ४ सितंबर, 2023

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिभिटेड सरफॉएसि अधिनियम २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत मांग सूचना पंजीकृत कार्यालय : "राधिका", द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009,

शाखां कार्यालय : खसरा सं. ४७, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे, विकासपुरी, दिल्ली-110018 आप, निम्न वर्णित ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्तागणों और गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) को बंधव वित्तीय अनुशासन को बनाये नहीं रखा उनका प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं। आपकी चूकों के परिणामस्वःप

रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण(ऋणानेक) / वित्तीय सुविधा(एं) प्राप्त की थीं और आप ने अप आपके ऋण को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के :प में वर्गीकृत कर दिया गया था। इसलिये अब, इसके उपरांत, कंपनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की है, जिसकी विषय-वस्तू को, आपको सूचना से अवगत कराने के वैकल्पिक सेवा—माध्यम के :प में तथा उसके द्वारा, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार यहां निम्नानुसार प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह-ऋणकर्ताओं, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना के अंतर्गत अभ्यर्थित राशि, एनपीए तिथि तथ

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : अजय कुमार तनेजा – मकान नंबर बी 343 द्वितीय तल न्यू फ्रेंडस कॉलोनी दिल्ली–110017 दिल्ली और इसके अलावा कार्यालय 301, तीसरी मंजिल, एनडीएम–1 नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा नई दिल्ली-110001 -और भी - दुकान नंबररू- जी1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर- 78 लाडली भवन, केंदार नाथ रोड दरिया गंज दिल्ली-110002 - अंजू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड – जी—1 प्लॉट नंबर 78 लाडली भवन कीरनाथ रोड दरिया गंज दिल्ली—110002 दिल्ली – तनेजा टोनर्स प्राइवेट लिमिटेड – जी 1 प्लॉट नंबर 78 लाडली भवन केदारनाथ रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002 दिल्ली –अंजू तनेजा – मकान नंबर बी 343 दूसरी मंजिल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली–110017 दिल्ली, ऋण खाता संख्याः ४९१४८१; ऋण राशि ः रु. २१५६४४७२.१ / – (रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख चौंसठ हजार चार सौ बहत्तर एवं पैसे दस मात्र), मांग सूचना : 16/08/2023; अभ्यर्थित राशि : 11.08.2023 तक रु 7148274 / – (रुपये इकहत्तर लाख अडतालीस हजार दो सौ चौवहत्तर मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शूल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदागत ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.08.2023; प्रतिभूति का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो दुकान सं.≔ जी−1, ग्राउंड फ्लोर प्लॉट नंबर –78, लाडली भवन, केदारनाथ रोड दरिया गंज, दिल्ली–110002 में स्थित है संपत्ति 91.63 वर्ग मीटर के अधि क्षेत्रफल के साथ भूतल पर दुकान बनाई गई है, संपत्ति सीमाएँ : उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– सामान्य मार्ग, पूर्व– संपत्ति का हिस्सा, पश्चिम– सड़क।

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं के नाम : आरती इलेक्ट्रॉनिक्स - 142 जी / एफ ओल्ड लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक दिल्ली-110006 दिल्ली -और साथ ही संपत्ति संख्या ए-28. क्षेत्रफल 53 वर्ग गज जो इंद्र नगर दिल्ली–110033 में स्थित मकान – सुमन बत्रा – मकान नं. 28वां तल पहला ब्लॉक–ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली—110033 दिल्ली — दीपक बत्रा — मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक —ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली–110033 दिल्ली – नरेंद्र बत्रा – मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक–ए इंद्र नगर | आदर्श नगर दिल्ली–110033 दिल्ली – कुलभूषण बत्रा – मकान नंबर 28 तल पहला ब्लॉक – ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली—110033 दिल्ली — कमलेश बत्रा — मकान नंबर 28 मंजिल पहली ब्लॉक — ए इंद्र नगर आदर्श नगर दिल्ली-110033 दिल्ली : ऋण खाता संख्या : 14594036 / 8676258; ऋण राशि रु.1751000 / – (रुपये सत्रह लाख इक्यावन हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 14594036 द्वारा और रु 9000000 / - (रुपये नब्बे लाख मात्र) ऋण खाता संख्या 8676258 द्वारा, मांग सूचना : 16 / 08 / 2023; अभ्यर्थित राशि : रु. 9761385 (रुपये सत्तानबे लाख इकसट हजार तीन सौ पिचासी मात्र) और आकिस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, एनपीए दिनांक : 02. 08.2023; प्रतिभृति का विवरण : संपत्ति संख्या ए–28 के समस्त वह भाग तथा अंश, माप 53 वर्ग गज जो इंदिरा नगर, दिल्ली में स्थित है, संपत्ति नरेंद्र बत्रा के नाम पर बिक्री विलेख सं. 1159 दिनांक 03.04.1984 के द्वारा और कुलभूषण बत्रा द्वारा गिफ्ट डीड क्रमांक 1231 दिनांक 21.07.1999

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : गिरीश कुमार श्रीवास्तव – पी 21, सेक्टर –23, संजय नगर, गाजियाबाद — 201001 उत्तर प्रदेश, गौरव क्मार श्रीवास्तव — पी 21, सेक्टर — 23, संजय नगर, गाजियाबाद — 201001 उत्तर प्रदेश — मीरा श्रीवास्तव — पी21, सेक्टर—23, संजय नगर, गाजियाबाद–201001 उत्तर प्रदेश, ऋण खाता संख्याः 974118; ऋण राशिः रु. 2500000 / – (रुपये पच्चीस लाख मात्र), मांग सूचना : 16 / 08 / 2023; अभ्यर्थित राशिः रु. 938711 / – (रुपये नौ लाख अड़तीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) 11.08.2023 तक और आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 14.07.2023; प्रतिभूति के विवरण : संजय नगर, ब्लॉक–पी, सेक्टर–23, गाजियाबाद में स्थित संपत्ति सं. 21 के समस्त भाग तथा अंश, माप 95.28 वर्ग मीटर, लीज कम सेल डीड सं. 4002 दिनांक 28.03.2003 के अनुसार पंजीकृत, संपत्ति श्रीमती मीरा श्रीवास्तव पत्नी गिरीश कुमार श्रीवास्तव के नाम पर है, जो इस प्रकार परिसीमित है : पूर्व– सर्कुलेशन, पश्चिम— संडक, उत्तर— प्लॉट नं. 22, दक्षिण— प्लॉट नं. 20

उधारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं के नाम : सश्री भवानी वस्त्र भंडार – भोला रोड ग्राम भोला झाल मेरट जानी–250501 उत्तर प्रदेश –और साथ ही –रेवेन्यू विला जीई भोला मेरठ सिटी जानी यूपी जानी–250501 – प्रेमवती चंद्रा भोला रोड पर स्थित एक निवास स्थान भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – चंद्र प्रकाश गर्ग — भोला रोड भोला मेरठ जानी—250501 उत्तर प्रदेश — राधेश्याम गुप्ता — भोला रोड गांव भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – मधु सिंघल – भोला रोड भोला मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश –अर्जुन गुप्ता –भोला रोड ग्राम भोला झाल मेरठ जानी–250501 उत्तर प्रदेश – अलका राधे – भोला रोड भोला मेरठ जानी-250501 उत्तर प्रदेश : ऋण खाता संख्या : 15562339 / 8550108: ऋण राशि : ऋण खाता संख्या 15562339 द्वारा रु. 418000 / — (चार लाख अटठारह हजार मात्र) और ऋण खाता संख्या 8550108 द्वारा रु. 2139717 / – (रुपये इक्कीस लाख उनतालिस हजार सात सौ संत्रह मात्र) तक मांग सूचना : 16/08/2023; अभ्यर्थित राशि : 11.08.2023 तक रु. 2305702/- (रुपये तेईस लाख पांच हजार सात सौ दो मात्र) और आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.08.2023; प्रतिभूति का विवरण : वह सभी आवासीय मकान, क्षेत्रफल 248 वर्ग गज, जो ग्राम भोला, तहसील और जिला मेरठ में स्थित तथा निम्नानसार परिसीमित है : पूर्व— 18 गज, फिर रमेश चंद और मुरारी लाल का मकान, पश्चिम— 14.5 गज, फिर लाला चतरभोज का घर, उत्तर- 18 गज, फिर रूप चंद नाई इत्यादि का घर, दक्षिण- 13 गज, फिर सडक

अतः आप उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को, इस सूचना के 60 दिनों के अंदर यहां इसमें उपर्युक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगकृत राशि का, पूर्ण भूगतान करने के लिये निर्देशित किया जाता है भुगतान करने में विफल होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिये अधिनियम व ु अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। (उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभृत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।) कृपया ध्यार दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप हमारी सहमति के बिना उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित हैं और अधिनियम की धारा 13(13) की कोई भी अनुपालनहीनता, उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। किसी भी प्रश्न के लिये कृपया श्री अरुण यादव से फोन : 9350538386 पर तथा विकास आनंद से फोन : 09711010384

पर संपर्क करें। स्थान ः दिल्ली राराक्षे, दिनांक : 06-09-2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

MGF द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 दूरभाष : 23272216-18, 23276872 फैक्स नं. : 23274606 ई-मेल : mgfltd@hotmail.com वेबसाइट : http://www.mgfltd.com सीआईएन नं. : L74899DL1930PLC000208 जीएसटी नं. : 07AAACT2356D2ZN

93वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की जानकारी

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए द मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों की 93वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को 11.30 बजे पूर्वा. में पंजीकृत कार्यालय अर्थात एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और नवीनतम परिपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, कम्पनी ने 93वें एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में 4 सितम्बर, 2023 को भेज दी गयी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.mgfltd.com पर Annual Reports (https://www.mgfltd.com/Audited%20Results.html) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा साथ ही सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल' www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है। इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंगः

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। तदनुसार एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का प्रयोग करके सदस्य द्वारा मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान

1. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 24 सितंबर,2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। 26 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

जिन सदस्यों के नाम 'कट-ऑफ तिथि' यानी बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा या एजीएम में ई-वोटिंग, जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कटऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 सितंबर 2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर एक ईमेल भेजकर अपने ईमेल पते रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत करवाएं।

बक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनसरण में एतदवारा नोटिस भी दिया जाता है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सिम्मिलित)

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 93वीं एजीएम की सूचना के नोट्स में उपलब्ध है और सदस्यों को भेजे गये ई-मेल में भी है। ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न/शिकायत, यदि कोई हो, तो ईमेल के माध्यम से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या 1800 22 5533 पर कॉल करके संबोधित किया जा सकता है।

> बोर्ड के आदेशानुसार द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड (एम.के. मदन) वीपी, सीएस और अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 4 सितंबर, 2023 एसीएस-2951

एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड सरफैसी अधिनियम. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना

.पंजीकृत कार्यालयः राधिका, २रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009

शाखा कार्यालयः ताजपुरिया पैलेस, कजरिया टाइल्स के ऊपर, कुकरल पुल के निकट, जरिस्ता शोरूम के बगल में, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016 आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चक की हैं।

आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्सपित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई| राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभृतियों का विवरण इस प्रकार है:

ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों का नामः संदीप कुमार माहेश्वरी, 8/8, एचआईजी फ्लैट्स, सामने होटल मैरिना

संजय प्लेस, हरि पर्वत, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश, शशांक माहेश्वरी, 8/8 एचआईजी फ्लैट्स, सामने होटल मैरिना संजय प्लेस, हरि पर्वत, आगरा सिविल लाइन्स, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश, विनीता माहेश्वरी, ऋण खाता सं. 13271289/6181072; ऋणराशिः ऋणखाता सं. 13271289 के द्वारा रु. 378405/- (रु. तीन लाख अठहत्तर हजार चार सौ पाँच मात्र) तथा ऋणखाता सं. 6181072 के द्वारा रु. 2000000/- (रु. बीस लाख मात्र); मांग सुचना तिथिः 16.08.2023, मांग की गई राशिः रु. 2019842/-(रु. बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बयालिस मात्र) 11.08.2023 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत चार्जेज, आदि के साथ उसकी वसूली तक आगे का ब्याज; एनपीए तिथिः 02.08.2023, प्रतिभृति का विवरणः फ्लैट/मकान सं. ८, ब्लॉक-८, २रा तल, माप ८५.13 वर्ग मी., एचआईजी फ्लैट, प्रॉफेसर कॉलोनी, हरि पर्वत वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा जैसा कि उप-रजिस्ट्रार, आगरा के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 5166, पेज नं. 61/82 में क्रमांक 06 तिथि 01.01.2005 में विधिवत पंजीकृत श्री संदीप कुमार माहेश्वरी, पुत्र श्री आर. के माहेश्वरी के पक्ष में श्री कन्हैया लाल साहनी, पुत्र श्री चेतनराम सहनी द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री प्रलेख के अनुसार है। चौहद्दीः पूर्वः खुला, पश्चिमः सामूहिक सीढ़ी, निकास तथा उसके बाद 8/9 का दीवाल, उत्तरः ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम : हरियाणा पैलेस रेस्टोरेन्ट एंड बार प्राईवेट लिमिटेड फायर ब्रिगेड

कॉलोनी अलीगढ एचसीएल अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, साथ हीं: मकान सं. 5/146 ई, एरिया 208.6 वर्ग मी., खसरा नं. 190 तथा 191 का भाग जो फायर बिग्रेड कॉलोनी, गूलर अलीगढ़ में स्थित है तथा साथ हीं: मकान सं. 5/128, एरिया 36.37 वर्ग मी. जो फायर ब्रिगेड कॉलोनी, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला-अलीगढ़ में स्थित है, पवन कुमार-सराय लवरिया अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, राज कुमार अगरवाल, रत्नेश पुरम, मैरिस रोड, कोइल, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, निमिशा अगरवाल-45, रत्नेश पुरम, मैरिस रोड, कोइल, अलीगढ़-202001, उत्तर प्रदेश, ऋण खाता सं. 6983379/ 15423319, ऋण राशिः रु. 5000000/-(रुपये पचास लाख मात्र) ऋण खाता सं. 6983379 द्वारा तथा रु. 945000/- (रु. नौ लाख पैंतालिस हजार मात्र) ऋण खाता सं. 15423319 द्वारा, मांग सूचना तिथिः 16.08.2023, मांग की गई राशिः 11.08.2023 को रु. 4927335/- (रु. उन्चास लाख सत्ताईस हजार तीन सौ पैंतीस मात्र तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ आगे का अनुबंधित ब्याज आदि, एनपीए तिथिः 02.08.2023, प्रतिभूति का विवरणः मोहल्ला फायर ब्रिगेड कॉलोनी, गूलर रोड, कस्बा कोईल, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला अलीगढ़ 202001 में स्थित खसरा नं. 190 तथा 191 के भाग में मकान सं. 5/146 ई, एरिया 249.6 वर्ग यार्ड्स अथवा 208.6 वर्ग मीटर का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः पूर्वः कमलेश कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः प्लॉट एवं अज्ञात व्यक्ति का मकान, उत्तरः गूलर रोड 50 फीट, दक्षिणः प्रेमवती का मकान)

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे। (ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम

की धारा 13 की उप- धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।) कपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिकी, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभृतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री कुश कपूर, फोन : 9838076150- विकास आनंद-9711010384

स्थानः उत्तर प्रदेश हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 06.09.2023 एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए

GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED CIN No. L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4, MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017 Tel. No.: 011-42181244, E-mail: genesis599@gmail.com, Website: www.genesisfinance.net

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the

Company is scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023, at 11:00 A.M. at the registered office of the Company situated at 4 MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi -110017 to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said AGM. The electronic copies of Notice of 33rd AGM and Annual Report for the financial year 2022-23.

Instructions for e-voting, Proxy Form and Attendance Slip have been sent to members by e-mail whose e-mail IDs are registered with the company/depository and physical copies by permitted mode to the members at their registered address. The Notice and Annual Report for the financial year 2022-23 is also available on Company's website i.e. <u>www.genesisfinance.net</u>, on Stock Exchange's Website www.msei.in and also on CDSL website www.evotingindia.com. The dispatch of the Notice of the AGM will be completed on 05th September, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") the Register of Members and the Share Transfer books of the Company shall remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to all its members to exercise their vote at the 33th AGM by electronic means through e-voting services provided by CDSL ("remote e-voting").

Members may please note that the remote e-voting will commence on Wednesday, 27th September, 2023 at 10:00 A.M. and will end on Friday, 29th September, 2023 at 05:00 P.M. both days inclusive. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The cut-of date for determining the eligibility to vote by Electronic means or at the AGM is Saturday 23" September, 2023. Any person, who become a member after dispatch of notice and hold shares as on Saturday, 23rd September, 2023 being cut off date, may obtain login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The members whose name appear in the register of members/list of beneficial owners as on the Saturday, 23rd September, 2023, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as the voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose

The facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM who have not cast their vote through remote e-voting. Further, a member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at

In case of queries, members may contact Ms. Richa Bhardwaj, Compliance Officer at the above Registered Office, Phone:011-42181244, E-mail id: genesis599@gmail.com or the Registrar and Transfer Agents at the following address: Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1 Floor, Okhla Industrial Area Phase - 1, East of Kailash, New Delhi – 110020, Tel: 011-26812682-83 Fax:011-26812682, E-Mail ID: info@skylinerta.com

By order of the Board For Genesis Finance Company Limited

Richa Bhardwaj

Date: 05.09.2023 Place: New Delhi (Company Secretary and Compliance Officer)

X VIKAS ECŐTECH LTD. CIN: L65999DL1984PLC019465

Registered Office: 34/1, Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 Tel No. 011 4314 4444 | Email: cs@vikasecotech.com Website: www.vikasecotech.com

Notice of Annual General Meeting & Book Closure Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of th

members of Vikas EcotechLimited will be held on Friday, September 29, 2023 at 4:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') General Circular Nos.14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 22/2020 dated June 15,2020, General Circular No 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated Decembe 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No 20/2021 dated December 8, 2021, and General Circular No. 3/2022 dated May 5 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2, CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of 38th AGM of the Company Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice and Annual Report

of 38thAGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Tuesday, September 5, 2023 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikasecotech.com Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive).

Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEB circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 38th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 38thAGM of the Company

In this regard, the members are hereby further notified that: The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the Annual General Meeting is September 22, 2023.

The remote E-voting period will commence from September 26, 2023 at 9:00 A.M

(IST) and will end on September 28, 2023 at 5:00 P.M.(IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. The persons who have acquired shares and have become member of the

Bigshare Services Private Limited on the help desk No. 1800 22 54orsend an e-mail to ivote@bigshareonline.com A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of

Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also

attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.

The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM

The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in

f you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22.

Date: September 5, 2023

Place: New Delhi

For Vikas Ecotech Limited Managing Director (DIN: 00255413)

दक्षिण रेलवे

सामग्री प्रबंध विभाग

नीलामी कार्यक्रम

कोचेज एवं लोकोज, स्क्रैप रैल्स तथा अन्य पर्मानेन्ट वे स्क्रैप सामग्री के निपटारे के लिये

सूचना सं. 10/2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से फेरस स्क्रैप, नान-फेरस स्क्रैप, अन्य विविध स्क्रैप, कंडम्ड वैगन,

ई-नीलामी आयोजित की जाएगी। माह अक्टूबर 23 के लिये नीलामी की तिथि नीलामी की क्र. ई-नीलामी का सामग्री ∣सं. ∣संचालन, द्वारा GSD/PER |10.10.2023 |18.10.2023 |25.10.2023 |31.10.2023 ई-नीलामी में CSSD/GOC | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 26.10.2023 | 31.10.2023 बिकी की जाने 05.10.2023 | 13.10.2023 | 27.10.2023 वाली मदों का MAS Division | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 विवरण SA Division | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 www.ireps.

6 TVC Division | 03.10.2023 | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 27.10.2023

7 PGT Division | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 30.10.2023

8 TPJ Division | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 20.10.2023

9 MDU Division 04.10.2023 12.10.2023 20.10.2023

माह अक्टबर 23 के लिये नीलामी की कल सं.-32 नग

टिप्पणी: अधिशेष डीजल लॉकोज की ''जैसा है जहां है शर्त'' पर बिक्री की जाएगी। विस्तृत नियमों एवं

शर्तों तथा विवरणिका डाउनलोड करने के लिये कृपया हमारी वेबसाईट https://www.ireps.gov.in > E-Auction-> Sale->Live Auction देखें।

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

gov.in

वेबसाईट में

विवरिणका में

उपलब्ध होगा।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

आर्किडप्लाई डेकोर लिभिटेड

(सीआईएन: L20231UR2017PLC008626) पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ७, सेक्टर-७, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर,

ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड—263153, दूरभाषः 05944—250270, फैक्सः 05944—250269

कॉर्पो. कार्यालय: भूतल, एलिक्सिर, चांसरी पैवेलियन, 135 रेजीडेंसी रोड, बेंगलुरू: 560025 दूरभाषः 08043714281, वेबसाइट www.archidplydecor.com, ई-मेल : bangalore@archidply.com

एजीएम, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्दवारा सचित किया जाता है कि आर्किङप्लाई डेकोर लिमिटेड के सदस्यों की छठवीं (6वीं) वार्षिक आम सभ शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 12.30 बजे अप. में इसके पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.7, सेक्टर—9, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड–263153 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। एतद्वारा यह सचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन)

नियमावली, 2014, समय–समय पर यथा–संशोधित के अनुपालन में उपर्युक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ रविवार, 24 सितम्बर, 2023 से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ छठवीं (6वीं)ं एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी

जा चुकी है, जिनके ईमेल पते कंपनीधंडिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी गयी हैं जिनके ईमेल पते कंपनीधिडपॉजिटरी के पास उपलब्ध नहीं हैं। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा समय—समय पर यथा—संशोधित सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी उपर्युक्त एजीएम में विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर

इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये अपने सदस्यों को सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)

लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

आगे. पोल/बैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है वे पोल/बैलट पेपर के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कम्पनी की एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वार मतदान की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जायेगी।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मैसर्स रजनीश शर्मा एंड कं, के प्रॉप्नाईटर, कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियक्त सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

कम्पनी की 6वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

मतदान तथा एजीएम में पोलध्पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होंगे। . रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर, 2023 को (10.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2023 को (5.00 बजे अप.) में बंद होगी,

ii. कट—ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 है iv. यदि कोई व्यक्ति शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2023 को शेयर्स धारित करता है, व helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या अपने फोलियो नं./डीपी आईडी नं. का उल्लेख करते हुए 022-23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करके रिमोट

ई-वोटिंग कर सकते हैं। किन्तु यदि ऐसे शेयरधारक पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु" [आरटीए/डीपी]

के साथ पंजीकृत हैं तो वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर

सदस्य कृपया ध्यान दें कि

प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे,

क. 29 सितम्बर, 2023 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) के उपरान्त रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ख. ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा कम्पनी की एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे एजीएम में पोल/बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने में सक्षम होंगे।

ग. रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के पश्चात भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है किन्तु उसे दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी। घ. केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ अर्थात 23 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर य डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा

vi. कम्पनी की 6वीएजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (Swww.archidplydecor.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट(www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगी। vii. एजीएम से पूर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन

कुण्डेर (022–23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें। viii. ई–वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया वार्षिक आम बैठक की नोटिस में 'नोट्स'

खण्ड का सन्दर्भ लें। आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड के लिये

स्थानरू बेंगलुरू शिवा किरन मवूरी तिथिरू 05.09.2023 कम्पनी सचिव इंडियन ओवरसीज बेंक

5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 002 सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा 2 के अंतर्गत उधारकर्ताओं /

बंधककर्ताओं / गारंटरों हेतु मांग सूचना स्थान : दिल्ली दिनांक : 22.08.2023

श्री अमित पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी बी-4 बायीं ओर का भाग मानसरोवर गार्डन दिल्ली-110015 प्तंदर्भ : इंडियन ओवरसीज बैंक, दरिया गंज शाखा के पास आपकी ऋण सुविधायें।

आप, उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं ने हमारी दरिया गंज शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधायें बकाया देयराशियों के साथ ऋण सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

कुल देयराशियां* 22.08.2023 के अनुसार (रु. में) ₹. 39,51,590 / -001703452000066 ₹. 39,51,590 / -

*संविदागत दरों / शेषों पर भावी ब्याज के साथ राशि, उपरोक्त अंकित तिथि से भगतान की तिथि तक न्क्रण सुविधायें, उधारकर्ता सं. 1 के नाम में दुष्टिबंधन के माध्यम से निम्न वर्णित परिसंपत्तियों द्वारा

प्रतिभूतियों के विवरण (अवस्थिति के साथ पूर्ण विवरण, चार सीमायें, चार दिशाओं

प्रतिभत थीं। आपने, अपने द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से निम्नलिखित लेन–देन के तहत देनदारियों की समय-समय पर पावती स्वीकार की है। 2. उपर्यक्त ऋण सविधाओं के लिये बैंक के पक्ष में प्रतिभतियों के विवरण इस प्रकार हैं

पर मापन, कुल विस्तार तथा स्वामी का नाम जो प्रविष्ट किया जाना है) कार टोयोटा फॉर्च्यूनर प्लेटिनम व्हाइट पर्ल का दृष्टिबंधन पंजीकरण सं: DL8CBE5991 इंजन संख्या : 1GDA690941 चेसिस नं: MBJAA3GS100577686~1122

अधिकार सुरक्षित है।

3. उपर्युक्त नामित उधारकर्ताओं द्वारा अनुबंधित शर्तों के अनुसार मूल ऋण / ब्याज के भुगतान में चूक किये जाने के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनसार 29.07.2023 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके खाते के नियमितीकरण के लिये हमारे अनुस्मारकों के बाद भी, आप ने अतिदेय ऋणों का उन पर नियत ब्याज सहित प्रतिभूगतान नहीं किया है।

चुंकि आप उपरोक्त नामित उधारकर्तागण, जिन्हें क्र. सं. 1 के तहत संदर्भित किया गया है, यहां ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रतिभतियों द्वारा विधिवत सरक्षित ऋण सविधाओं के संबंध में देनदारियों को परा करने में विफल रहे हैं और आपके खाते को अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने पर, हम एतद्द्वार आप में से नंबर 1 को दिये गये अपने अग्रिमों को वापस लेने का आहवान करते हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत आपको सुचित करते हैं और आपको इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उपरोक्त पैरा 1 में विवरणितानुसार रु. 39,51,590 / – का, उपरोक्त अंकित तिथि से, अनुबंधितानुसार मासिक शेषों के साथ चक्रवृद्धिकृत पैराग्राफ । में अंकित आरओआई की दर पर भावी ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान

करने और अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए कहते हैं। 5. हम आगे उधारकर्ता नामतः श्री अमित पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह (दृष्टिबंधककर्ता) को सूचित करते हैं, जिन्होंने सरफॉएसि अधिनियम के तहत प्रवर्तनयोग्य गैर-कृषि-प्रतिभृतियों को दिया है और जो कि भुगतान की तिथि तक ब्याज और शुल्कों इत्यादि के साथ उपरोक्त राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल हो चुके हैं, हम उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत हमारे पास निहित सभी अधिकारों अथवा उनमें से किसी एक अधिकार का प्रयोग करेंगे।

6. कुपया ध्यान दें कि विधि के अंतर्गत उधारकर्ताओं को पृथक रूप में भावी ब्याज तथा शुल्कों इत्यादि के साथ बकाया देयराशियों का प्रतिभूगता करना है।

7. कृपया ध्यान दें कि ब्याज जो है वह पूर्ण प्रतिभूगतान होने तक प्रत्येक ऋण सुविधा हेतू अनुबंधितानुसार दरों एवं शेषों पर निरंतर उपार्जित होता रहेगा। 8. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (13) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके

अनुसार आपको, हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी सूरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने/अलग करने/स्थानांतरित करने से रोका जाता है। कृपया यह भी ध्यान दें कि उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करना / उनका उल्लंघन करना एक अपराध है, जो अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावार और / या जुर्माना के साथ दंडनीय है।

हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि खाते को निर्धारित समय के भीतर नियमित नहीं किया जाता है / चुकाया नहीं जाता है और यदि बैंक आपको भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, तो इस स्थिति में बैंक, वसूली के लिये बैंक के पास उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अलावा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके नाम, पते, चूक के विवरण, देय राशि, इत्यादि के साथ समाचार-पत्र(त्रों) में आपकी फोटो प्रकाशित करने का अधिकार

सूरक्षित रखता है। 10. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना बिना किसी पूर्वाग्रह के है और इसे किसी भी अन्य अधिकार या उपचार की छट के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि उपरोक्त बकाया राशि की वसली के

साथ-साथ आपके द्वारा देय एवं भगतानयोग्य बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने के हमारे अधिकार के रूप में हमारे पास है। 1. इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए आपके पास उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com